

 <p>आज़ादी का अमृत महोत्सव</p> <p>CBSE Affiliation No.: 1500011</p> <p>School No.: 19113</p>	<p>केन्द्रीयविद्यालय भा. नौ. पो. चिल्का खुर्धा ओड़िशा - ७५२०३७ दूरभाष: ०६७५६ - २५७२०३ फैक्स: ०६७५६ - २५७२०३</p>	 <p>तत् त्वं पुषन् अमृतम् केन्द्रीय विद्यालय संगठन</p>	<p>KENDRIYA VIDYALAYA INS CHILKA CHILKA (KHORDHA) Odisha-752037 Ph.no.: 06756-257203(O&R) Fax: 06756- 257203</p>	 <p>KV Code: 1161 School Code: 101</p>
<p>Ref .No. F. 150331(1)/KVC/1161/2022-23/</p>			<p>दिनांक/ Date : 10.05.2022</p>	

NOTICE FOR ADMISSION IN CLASS-I(2nd LIST)

DOCUMENTS REQUIRED FOR ADMISSION IN CLASS-I, SESSION 2022-23

- Hard Copy (Print Out) of the Online Application Form**
- A Color Passport size photograph of the child.
- Birth Certificate(Photo Copy)** issued by the Competent authority showing date of birth
- Proof of Residence** (Any of the proof issued by the government / government agency and in the name of either of the parents - **in case rented house a rent agreement and electricity bill of the house owner**)
- Self declaration about the distance of the residence from K.V INS, Chilka.** (Format enclosed)
- SC/ST Certificate** issued by the competent authority in the name of the child. If it is in the name of the parent an undertaking should be submitted that certificate in the name of the child will be submitted within 03 months from the date of Admission.
- OBC (Non-Creamy Layer) Certificate** issued by the competent authority in the name of the child. It should not be older than three years i.e issued after 01.01.2019. Certificate in the name of the parent shall be accepted only if the parent submits an undertaking that the OBC(Non-Creamy Layer)Certificate in the name of the child shall be submitted within 03 months from the date of admission SEBC Certificate will not be accepted in lieu of OBC Certificate.
- EWS Certificate** from the competent authority
- BPL card (Photo Copy)** – BPL Card , if available in the name of the father of the child, but lapsed as on date , this can be undersigned by BDO of the locality for rural areas/ Executive Officer of NAC or Municipality area to validate the card along with any one of the following documents:
 - Antyodya Anna Yojana (AAY) card along with Low Income Certificate.
 - PHH Ration Card along with low Income Certificate / MGNREGA Job / Labour Card.
- Service Certificate** showing the number of transfers during the preceding 7 years issued by the competent authority & Certificate from the DDO/Head of the Office showing the Pay particulars of the employee, the status of employment and the nature of the establishment (Applicable only for Government employees)-(Format enclosed)
- For Ex-Service Man – Bonafide Certificate & Transfer** details counter signed by the Zilla/Rajya Sainik Board or any competent authority, copy of the ID of Ex-Service Man.
- For Single Girl Child-** An affidavit form the Notary in the prescribed format (enclosed). (Affidavit should not be older than one year)
- Certificate from the Employer**
- Self Declaration format (Enclosed)**
- Any other documents as required under Admission Guidelines in support of any claims made.

Please visit KVS website (<https://inschilka.kvs.ac.in/>) for further details.

Date & Time for Verification of Documents

2ND PROVISIONAL LIST OF ADMISSION IN CLASS- I (2022-23)				
SC Lottery Result				
S No.	Application Submission Code	Name	Date & Time	
1	222309487063568700	SUBRAT BEHERA	11.05.2022 to 13.05.2022 (09:00 A.M to 12:00 Noon)	
2	222307533643392041	DIVYANSHU JALLY		
ST Lottery Result				
S No.	Application Submission Code	Name		
1	222311267763466967	MONALISA SABAR		
OBC Lottery Result				
S No.	Application Submission Code	Name		
1	222307706562453060	DIBYANSHI SAHOO		
2	222311126223564353	ARYA ASMIN BEHERA		
3	222310239223132530	HITESH NAYAK		
4	222306633302625336	JASLINE NAYAK		
5	222311355403483843	SAI SHREYANSHEE MAHARANA		
6	222309490363405019	SWASTIK SWAIN		
7	222303102001769709	PIYUSH KUMAR SWAIN		
8	222311820923627593	SWYANSIDDHA PRADHAN		
9	222303490521766094	PRATEEK KUMAR BARIK		
10	222306796065530055	PRIYANKA PRIYADARSHINI		

NOTE:

1. Mere registration/ provisional selection will not confer a right to admission. Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled / rejected automatically and no appeal shall be entertained.
2. The candidates from the wait list may be called by notice in case of non joining/detection of false claims of the provisionally selected candidates. Notice will be given separately for SGC also.
3. Come with the original documents as and a self attested copy of each of them.



Admn. I/C



Principal
Biju Prasad / Principal
Biju Prasad / Kendriya Vidyalaya
K. V. No. 1, Biju Prasad / Kendriya Vidyalaya
PIN-752037 (Odisha)

Principal

केन्द्रीय विद्यालय Kendriya Vidyalaya

प्रवेश के लिए प्रार्थनापत्र APPLICATION FOR ADMISSION

- क्रम सं० Sr.No.
1. विद्यार्थी का पूरा नाम Name of Student
 2. ईस्वी संवत् में जन्म-तिथि (अंको में)
Date of Birth (in figures)
 3. आयु (प्रसंगाधीन वर्ष की 1 अप्रैल को) वर्ष माह दिन
Age (as on 1st April of the Year) Year..... Month..... Days.....
 4. राष्ट्रियता Nationality
 5. माता-पिता का ब्यौरा : माता पिता
Details of Parents : Mother..... Father
 - (i) पूरा नाम Full Name
 - (ii) व्यवसाय Occupation
 - (iii) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष संख्या
Name of office and full address with tel. No.
 - (iv) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष संख्या
Full residential address with Tel. No.
 - (v) मूल वेतन सम्बद्ध वर्ष की 1 अप्रैल को
Basic pay as on 1st April of the year
 - (vi) प्रसंगाधीन वर्ष के 31 मार्च तक पिछले
7 वर्षों में हुए स्थानान्तरणों की संख्या
No. of transfers during last 7 years
 - (vii) माता-पिता की श्रेणी Category of parent
 6. स्थानीय अभिभावक का पता (यदि हो)
Name & address of local guardian (if any)
 7. अन्तिम विद्यालय जहां पढ़ा हो
Name & Address of the school last attended with class
 8. क्या यह केन्द्रीय विद्यालय था या मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त विद्यालय था
Whether it was a Kendriya Vidyalaya, Recognised/Unrecognised School
 9. विगत परीक्षा परिणाम Result of last examination.....
अंकों का प्रतिशत Percentage of marks
 10. जिस कक्षा में प्रवेश चाहिए Class to which admission is sought
 11. लिये जाने वाले प्रस्तावित विषय
Subject proposed to offer
 12. क्या स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न है ? हां/नहीं
Whether the transfer certificate is attached ? Yes..... No
 13. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की संख्या व तिथि
No. & Date of transfer certificate
 14. मातृ भाषा Mother tongue गृह नगर Home Town
 15. क्या विद्यार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति से है ?
Whether the student belongs to Scheduled Caste/Tribe

P.T.O.

DECLARATION BY THE PARENTS

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है।

I hereby declare that the above information furnished by me are correct to the best of my knowledge.

मैं विद्यालय नियमों से प्रतिबद्ध रहूंगा/रहूंगी। I shall abide by the rules of the Vidyalaya.

Date

Signature of Parents

FOR THE OFFICE USE ONLY

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदन-पत्र और सम्बद्ध कागजातों की जांच कर ली है।

Certified that I have checked the application form and the relevant papers are found in order.

Admission Incharge

2. सम्बद्ध कागजातों के निरीक्षणोपरांत एवम् शुल्क प्राप्तापरांत कक्षा वर्ग में प्रवेश दे।

Please admit to class section after checking the relevant papers and realise the dues.

Date

PRINCIPAL

दाखिला दिया गया Admitted to Class Section

प्राप्त धन का विवरण

Details of amount received :

शुल्क रसीद संख्या

तिथि

निर्गत

Fee Receipt No.

Dated issued

प्रवेश शुल्क

शिक्षा शुल्क

Admission Fee

Tuition Fee

छात्र निधि

विज्ञान शुल्क

Pupils Fund

Science Fee

योग रू०

Total Rs.

कक्षा उपस्थिति पंजिका में नाम दर्ज किया गया।

Name has been entered in the Class Attendance Register

Class Teacher

प्रमाणित किया जाता है कि समस्त प्रविष्टियां छात्र पंजिका में दर्ज की गई एवम् शुल्क का भुगतान इस कार्यालय/कक्षा अध्यापक के द्वारा प्राप्त किया गया।

Certified that all the entries have been made in the Scholar's register and the dues have been realised by Office / Class Teacher.

विद्यार्थी की छात्र पंजिका संख्या

खण्ड

है।

The S.R. No. of the student is Vol.

Date

Office Incharge

FILE

Date

PRINCIPAL

CHECK LIST OF DOCUMENTS

Fresh

KV/Army TC

ADM Form No. :

Original TC No. :

Date of Birth Certificate :

Dated :

Residence Proof :

Duplicate Copy of TC :

Blood Group :

Movement Order :

Affidavit (if any) :

RO Verification (if any) :

Counter signed TC (V onwards) :

Service Certificate :

सेवा प्रमाणपत्र / Service Certificate

(केन्द्रीय सरकार / Central Govt.)

प्रमाणित है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा बल / एन.एस.जी. / एस.पी.जी / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित हैं , के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है / पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt. is working as regular employee in the Office / Ministry of He/She is an employee of Defence Service / CRPF / BSF / NSG / SPG / CISF / Central Govt. / Autonomous Body / Public Sector Undertaking fully financed / partially finance by the Central Govt. and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in India.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office

.....

स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं, नाम (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल(31/3/202__) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंकों व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है ।

I,.....(Name).....(rank/designation) of (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.202__) I have been transferred Times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under:-

स्थान से / Office /Unit and Place	अवधि दिनांक से / Date of joining the Office/Unit	अवधि दिनांक तक / Date of release from the Office/Unit	ठहरने की अवधि / Period of Stay (in months)	स्थान तक / Transferred Office / Unit and Place	दूरी (किमी)/ Distance between the two Office (in km)	स्थानांतरण आदेश संख्या / Transfer Order No.

मैं जनता /जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जायेगा।

I know that if the above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

स्थान/ Place
दिनांक/ Date

माता /पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर / Countersignature

में, नाम (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विषय विवरण को कार्यालय-आलेखों से जांच लिया गया है व सही पाया गया है।

I, (Name).....(rank/designation) of (unit/ department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in the office and found correct.

स्थान/ Place

दिनांक/ Date

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Competent Authority
(with Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या

Complete Address and Telephone No. of Office

टिप्पणी / Note :

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।

1. Minimum period of posting / stay at a place should be minimum six months.

**SERVICE CERTIFICATE
(STATE GOVERNMENT)**

Certified that Sri/Smt. _____ is working as a regular/permanent/temporary/contractual/part time/casual employee in the capacity of _____ in this office /Ministry /under the Ministry of _____ government of _____. He/She is an employee of State Govt. / State Govt. Autonomous body/State Govt. PSU fully financed by the State Govt./partially financed by the state Govt. His/her services are non-transferable / transferable anywhere in _____.

Complete Address and telephone No. of the Office

Place: _____

Signature of Head of the Office

Date: _____

(with Name, Designation and Office Stamp)

CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

I _____ (Name) _____ (rank /designation) of _____ (Name of the Office), do hereby certify that during the past 7 years (Up to 31.03.2019) I have been transferred _____ times (In figures & in words) from one station to another. *(If the distance between the previous place and the present place of posting is at least 20 kms and the minimum period of stay is six months then only it will be considered as a transfer)*. The details of the transfers are given as under:

Office/Unit and Place	Date of Joining the Office/Unit	Date of Release from the Office/Unit	Period of stay(in days)	Transferred Office/Unit and Place	Distance between the Two Office (in km)	Transfer Order No.

I know that if the above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

Signature of the Parent

COUNTER SIGNATURE

I, _____ (Name) _____ (Rank/Designation) of _____ (Name of the Office/Unit/Department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in the office and found correct.

Place: _____

Signature of Head of the Office

Date: _____

(with Name, Designation and Office Stamp)

CERTIFICATE FROM THE DDO/COMPETENT AUTHORITY

I Sri/Smt./Ms. _____ (Name of the Employer/DDO) ,
designation _____ working in the office of
_____ department of _____ ,
government of _____ do hereby certify the following in respect of
Sri/Smt./Ms. _____ (Name of the Employee) whose
son/daughter _____ (Name of the Child) is seeking
admission in Kendriya Vidyalaya INS CHILKA .

01	Name of the Child to be admitted (in Block Letters)	
02	Class in which admission is sought	
03	Full name of the employee (in Block Letters)	
04	Designation of the employee	
05	Employee Code / Employee Identity No.	
06	Name of the office where the employee is presently posted	
07	Whether Permanent/Regular/Temporary/Contractual/ Part Time/ Adhoc/Daily Wage Basis/Casual (Should be written clearly)	
08	This office/organization is Central Government/Central Government Autonomous body/PSU fully or partially financed by Govt. of India/State Government/ State Government Autonomous Body/ PSU fully or partially finance by the state govt. (Should be written clearly)	
09	Recent Pay/Salary of the Employee with proper Split up	(i) Basic Pay : _____ (ii) Grade Pay / Level : _____ (iii) DA : _____ (iv) HRA : _____ (v) Any Other _____ (vi) Any Other : _____
10	Whether the employee is drawing the consolidated pay	YES / NO

Place: _____

Date: _____

Signature of the Certifying Authority with Seal

Office Seal

Complete Address of the Office:

Telephone Number: _____

ANNEXURE – I
Self-Declaration Format

I _____, Father/Mother of Master/Miss _____

age _____ years, resident of _____ (complete address),

do hereby declare that the information given admission form of the admission in Kendriya Vidyalaya,

_____ and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and nothing

has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false / not

true at any point of time, admission has be dimmed cancelled and will liable to punishment as per guidelines

of KVS and the benefit accrued by me or my ward shall be summarily cancelled.

Date:-

Place:-

Signature of the Parent/Guardian